



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 कार्तिक 1944 (श0)
(सं0 पटना 921) पटना, बुधवार, 2 नवम्बर, 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

2 नवम्बर, 2022

सं० सं० 3/एच0-01/2019सा0प्र0-19468—भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 101—गोपालगंज तथा 178—मोकामा बिहार विधान सभा क्षेत्र के रिक्त स्थान के उप चुनाव के लिए दिनांक—03.11.2022 (गुरुवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है।

2. अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा—135 'ख' में निहित प्रावधानों तथा एन.आई. ऐक्ट, 1881 की धारा—25 के स्पष्टीकरण के आलोक में 101—गोपालगंज तथा 178—मोकामा विधान सभा क्षेत्र के रिक्त स्थान के उप चुनाव के लिए दिनांक—03.11.2022 (गुरुवार) को निर्धारित मतदान की तिथि को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

3. उपर्युक्त मतदान की तिथि 03.11.2022 (गुरुवार) को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश मात्र 101—गोपालगंज तथा 178—मोकामा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ही रहेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 921-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>